

September 04, 2021

To National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No.C/1, G Block Bandra-Kurla Complex Mumbai-400051

Dear Sirs

Sub: Submission of Newspaper Publication of the Notice for AGM, Book Closure and
Remote E-voting
Symbol: JETKNIT

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Notice of the 25th AGM published in "Business Standard" (both English & Hindi editions) dated September 04, 2021 confirming:

- (i) the completion of dispatch of Notice of 25th Annual General Meeting and Annual Report for the Financial Year 2020-21
- (ii) Relevant date for voting through electronic means and e-voting information
- (iii) Book Closure details for 25th Annual General Meeting of the Company

The said newspaper advertisements have also been uploaded on our Company's website, www.jetlycot.com


Kindly take it on your records. Thanking You Yours Faithfully

For JET KNITWEARS LIMITED

(Vishesh Tiwati) Kanpur-12 Company Secretary

& Compliance

Encl: a.a.



+915122217553 +915122296128

57 A, Dada Nagar, Kanpur, U.P., INDIA

26 A, Appachi Nagar, Kongu Main Road, Tirupur-641607, Tamilnadu

@ info@jetknit.com @ www.jetlycot.com

數 Shop online at: www.jetlycot.com



POSSESSION NOTICE

Retail Assets Center: 1st Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow-226010

3rd Floor, G-4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension Lucknow-226010

3rd Floor, Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhakar Marg, Worll, Mumbal-400 025

Trishul', 3rd floor, Opposite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

Whereas the undersigned being the Authorised Officers of AXIS BANK LTD. under Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets Enforcement Of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 9 of the Security Interest (Enforcement) Public 2002 And in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said with Rule 9 of the Security interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act. The borrower's mentioned herein below. Act. The borrower's mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower's mentioned here in above in particular and to the property mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of account to public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13 (4) of the said Act read with the Rule 8 of the said Rules. The borrower's manifement here is to the said Rules. said Rules. The borrower's mentioned here in below in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the said property and any dealings with the said property and t with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of AXIS BANK LTD. for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each section (8) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (9) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section 13 of the Act, in respect of time amount the section (18) of section

No.	a Co-Borrower/s/Guarantor/e	Description of the Charged/ Mortgaged Property	Amount Outstanding
	M/s Anand Food Products (Borrower) H-69, 1A Agro Park, 2nd, UPSIDC Industrial Area, Kursi Road, Fatehpur, Barabanki, Ultar Pradesh - 225302 Through Prop. Sarwada Devi Also at: 2/136 Sector-H, Jankipuram, Lucknow - 226021 Through Prop. Sarwada Devi Mrs. Sarwada Devi (Guarantor) W/o Selish Kumar R/o 2/136 Sector-H, Jankipuram, Lucknow, U.P. 226021	Situated at H-69, 1A Agro Park, 2nd, UPSIDC Industrial Area, Kursi Road, Fatehpur, Barabanki, Uttar Pradesh - 225302 Admeasuring Area: 450 Sq.mt. Boundaries: East: Plot Number H-68 West-Plot Number H-70 North-Road South - Plot Number K-39 & K-40	Rs. 62,03,889.00 & Rs. 32,94,584.50 as on 30.06.2017 with further interest + other expenses
			Demand Notice Date 20.12.2017
			Possession Date : 02.09.2021
Da	ite : 04.09.2021, Place : Lucknow	(Authorize	ed Officer), AXIS BANK LTI



IET KNITWEARS LIMITED



(CIN:-L19101UP1996PLC019722) Reg Office: 119/410-B-1 Darshan Purwa, Kanpur UP 208012

Tele: 0512 2217553, 2296128, Email: Info@ietknit.com, Website: www.jetlycot.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that:

Twenty Fifth (25th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) of the Members of Company will be held on Mouday, September 27, 2021 at 01:00 PM at Registered Office of the Company at 119/410, B-1, Darshan Purva, Kanpur, to transact the business as set out in the Notice of the 25th AGM dated August 26, 2021 separately dispatched to the members.

In compliance with all the applicable MCA Circulars and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January

15, 2021 read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, the Notice of the 25th AGM along with e-voting instructions and the Annual Report for the Financial Year 2020-21 have been sent in electronic mode to all the

Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. The dispatch of AGM Notice to all the eligible members of the Company through permitted modes was completed on September 03, 2021.

Members may note that a copy of the abovementioned AGM Notice and Annual Report 2020-21 is also available on the Company's website www.ietlycot.com and on the website of the Stock Exchange i.e. NSE Limited at www.nseindia.com and at the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at https://www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to Provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable rules and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from

Tuesday, September 21, 2021 to Monday, September 27, 2021 (both days inclusive).

Pursuant to section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014("the Rules") the Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and Regulation 44 of the Listing Regulations, (as amended from time to time, including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force), the members are provided with the facility to east their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. All members have been informed that:

a) The members may east their vote electronically.

a) The members may east their vote electronically.

b) The e-voting period will commence at 09:00 A.M on Friday, September 24, 2021.

c) The e-voting will end at 05:00 P.M on Sunday, September 26, 2021.

d) The Cut-off date for e-voting and voting at AGM is September 20, 2021.

e) The e-voting module shall be disabled by the NSDL for voting on September 26, 2021 after 5:00 p.m.

f) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the dispatch of Notice of the 25th AGM and whose name appears in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on the cut-off date in September 20, 2021 may obtain the login ID and Password by following the procedure as mentioned in the Notice for the AGM or send a request to cvoting@nsdl.co.in.

g) Once the vote on a resolution is cust by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. The members who have already casted their vote by remote e-voting prior to meeting may also attend the meeting but will not be entitled to east their vote again.

their vote again.

In case of any queries or issues regarding e-voting, Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders In case of any queries of mass of many fine and evoting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsd.com or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager (NSDL) National Securities Depository (India) Limited, A wing 4th floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, Phone: 022 2499 4545 or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or

send a request to evoting@nedl co.in.

h) The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company

n) the voting of including Annual Report, Notices, Circulars etc. from the Company electronically. Manner of registered their e-mail addresses so far, are requested to register their e-mail address for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars etc. from the Company electronically. Manner of registering / updating email addresses is as under:

i) Members holding shares in physical mode, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are

1) increases in the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card at info@ietknit.com or compliance@ietknit.com or to Company's RTA Big Share Services Private Limited at mukesh@bigsharconline.com.

ii) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository

Participants are requested to register their email addresses with the Depository Participants with whom they maintain their demat

By Order of the Board of Directors Jet Knitwears Limited Sd/-(Vishesh Twari) Company Secretary & Compliance Officer

Date: 03.09.2021



जेट निटवेअर्स लिमिटेड

चीआर्क्स- L19101UP1996PLC019722 पंजीवृत्त कार्यात्यः 119/410-ची-1 वर्षा-पुरस्य कारपुर यूपी 208012 द्वरभवः 0512-2217553, 2296128 ईमेस info@jetknit.com वेबसाइट: www.jethycot.com



- पुणन करना को है। यह जिसके अपने के अपने के एप्योचन होन्यर, 22 निर्वस्त 201 को दोग्वर 10:00 बचे कंपनी के पर्याप्त कंपनी के सहस्त की प्रयोचनी (अपने) निर्वार के अपने किया अपने किया 25 निर्वस्त की सुपन दिशक 26 अगल, 2021, दिसे सबसी को अरुपने में भाग गया है, में निर्वारत प्रथमान के निर्वार किया साहमा
- अतर ने अंग मंत्रा है, में लियान करनाय के लियाने किया कारणां नमी लाए प्रमाणे परिषयों और सेवी परिषय संस्था सेवी पर को सीहरूजी सीमाईआर पी2021/11 दिनांब 15 जनवरी 2021 के पाय परित सेवी परिषय संस्था सेवी एपओ सीहरूजी सीमाईआर अंग (पी2020 79 दिनांब 12 मई 2020) के अनुवादन में ई सेटिंग निर्देशों के बाथ 5:48 परीक्षा की सूचन कर सिर्वांच कर 2020-21 की सामिक दियार की सरेकड़ीनिक मोड में उन कभी करवा को अंग दिया गय है मिनांव है भी कर पी अपनी (प्राचीविदरों के काथ पंजीवान हैं। अनुनत तरीकों के माधाम से कंपनी के सभी पात सदस्तों को एबीएम नोटिस का प्रेयस 60 सितंबर 2021 की पूछ किया गया।
- करण कृपक बार के दिन उपर्यक्त एवंपिए नीटिंग और वार्षिक रिपोर्ट 2000.21 को एक छति वंपणी की वेबसाइट www.jatyon.com और वर्षिक एकावेच बानी क्षानवर्ष जिमिटेक की वेबसाइट www.maindia.com और नेकास सिक्योंटिंग डिपॉरिटरी त्रिमिटेक (NSDL) वी वेबसाइट hogy: www.modig.mall.com र भी वापनार्थ हैं।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा वा के प्राथमाने और तातु नियमों के साथ पतित सेथी (एतओडीआर) विनेषम, 2015 के विनियम 42 के प्राथमाने के अनुसार ममाजवाद, 21 निर्माय, 2021 से सोमायर, 27 निर्माय, 2021 (दोनों दिन सामित) कंपनी के स्वदन्तों का रवितरर और सेयर स्वतितरम पुरावें कर दोनों।

- प्रधान के अनुसार, माजाय, 21 सिमांबर, 2021 से सोमायर, 27 सिमांबर, 2021 (दोनों दिन सामित) कपनी के सहस्तों का रविस्तर और सेंग्रेस स्वान्तित पुराने वर दोनों।
 कानों अधिकान, 2012 की वार्म 100 के साथ पतित कंपनी (सांबर और प्रधान) दिनम, 2014 (दोनमान) के निरम 20, एवं भारतीय कंपनी स्वीचित सीमांबर, 2015 हों, उत्पान सेंग्रेस सीमांबर, विभाग के अनुसार, तामा संस्वाच पर संस्तीचित दिन्सी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संस्वच पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संसाव पर संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संसीच पर संसीच के अनुसार, तामा संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संसीचित के अनुसार, तामा संसीचित किसी में विभाग कर के अनुसार, तामा संसीचित के अनुसार, तामा संसीचित किसीच के अनुसार, तामा संसीचित के अनुसार, तामा संसीचित किसीच के अनुसार, तामा संसीचित के अनुसार (का किसीच का अनिस्त्र के अनुसार कर के अनुसार कर कर के अनुसार का सामा संसीच के अनुसार कर के अनुसार के
- जिन सदस्यों ने बात कर अपने ई.मेल पत्ते पंचीकृत नहीं किए हैं, उनसे इंटीक्ट्रॉनिक रूप से कंपनी से क्वॉर्क रिपोर्ट, मेरिस, परियत आदि हाहित सभी स्वार प्रायत करने के लिए अपना ई.मेल पत्ता पर्चीकृत करने का अनुरोध किया चाता है। इंगित पत्ती को पंचीकृत/अदावत करने का सरीका इस
 - प्रकार है.) भीतिक रूप में चेपर रखने वाले सदस्य, विन्हीने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट नहीं कियो है, से अनुरोध है कि वे कंपनी को कोहियों नोतर के विवस्त और मैन कार्ड की पूक सम्भावाधित प्रति संत्रक करके intropjechnit.com में compliance@jethnit.com मां कंपनी के आरटिंग दिना शोपर सर्विक पाइपेट लिमिटेंड milush@biplancenline.com में स्थित करें। हो डीमेटींसराजन में की में पर स्वत को सदस्य कियों कि अपने दिनीयित हो अपने स्वतिक प्रति अपने स्थात पत्र को पंजीकृत / अपने ट्रायिट प्रति हो अपने स्वति हो हो के स्वति हो अपने हमिल प्रति को स्वति हो अपने स्वति हो किया है, उनमें अनुरोध है कि वे अपने हमिल पत्र को दिन्योंबिटरी प्रतिभागियों के बाथ पत्रीकृत कर किया हो अपने हमिल स्वति हैं।

अधिकारियों का कहना है कि भारत अपलब्ध कराया जाएगा।

तक का क्रजा लिया जा सकता है। स्थाप तथा अन्य कृषि आवाहत सहकारिता विभाग के उद्योग लगाने के लिए सस्ता कर्ज

कोयले की आपूर्ति सुधारने के लिए शक्ति में बदलाव

श्रेया जय नई दिल्ली, 3 सितंबर

विजली संयंत्रों को ज्यादा कोयला मुहैया कराने के लिए, जिन्होंने कोई विजली खरीद समझौता नहीं किया है, केंद्रीय बिजली मंत्रालय शक्ति योजना के दिशानिर्देशों में बदलाव के लिए सहमत हो गया है।

शवित- या स्कीम फॉर हार्नेसिंग ऐंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया की शुरुआत 2018 में की गई थी, जिससे दबाव वाली विजली इकाइयों को कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, जो कोयले के संकट से जूझ रही हैं। निजी बिजली कंपनियों के

संगठन एसोसिएशन आफ पावर

प्रोड्यूसर्स के साथ बैठक में बिजली मंत्रालय नीलामी के लिए 3 महीने, 6 महीने और एक साल के अलग विंडो के लिए सहमत हो गया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, 'लंबी अवधि के लिए कोयला उपलब्ध कराने के लिए एमओपी यह देखेगा कि क्या नीलामी की अवधि एक साल से ज्यादा के लिए बढाई जो सकती है। बैंक गारंटी के मसले की भी जांच होगी, अगर अवधि 1 साल से ऊपर के लिए

पिछले 2 साल में आयोजित इसके पहले के दो दौर में करीब 9,389 मेगावॉट बिजली क्षमता के लिए शक्ति के तहत कोयला दिया दरअसल भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते के पहले की बातचीत

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कहा था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया बाच संभ्यात क पहल का अतथात पहले ही शुरू हो चुकी है। भारत को उम्मीद हैं कि ब्रिटेन के साथ एफटीए बार्ता तेज होगी और दिसंबर के अंत तक कुछ परिणाम रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि

थोडा जिल्ला होगा क्योंकि हर की अपनी जरूरत है। भार ब्रिटेन के साथ एफटीए जादा से हो सकता है क्योंकि ब्रिटेन रुचि ले रहा है। ऑस्ट्रेलिया के भी जल्द बातचीत शुरू होगी।

बीएस सूडोकू 4143

परिणाम संख्या 4142



कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नी तक की संख्या भरें।

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

8200/8400.

दिल्ली
दिल्ली सरापन बाजार में शुक्रवार को दिल्ली सरापन बाजार में शुक्रवार को सीन में रूपये की मामूली वदल के साब 46,171 रुपये प्रति दस जाम से गया। इससे पिछले कारोबारी सन में सोना 46,169 रुपये प्रति दस जाम पर बंद हुआ। दूसरी और इसके विपरीत, बांदी के लिक्ता 209 रुपये ग्रितर कि व्यापन पर बंद हुआ। दूसरी और इसके विपरीत, बांदी के लिक्ता का मामूली निर्माण पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली तेनी में साथ आप हो हो की से साथ पात्री की से साथ प्रति और पर से हा मामूली होने पर बात प्रति और पर से साथ कराये प्रति विपरत प्रति और पर स्वापन आपरिवर्धित रही। येद भा पर से साथ रूपये प्रति विपरत हो।

स्वाध्या अपरिवर्धित रहे। यह भाव रुपये प्रति विवेदल लखनऊ गेर्द्ध रहा १९००/१९२०, गेर्द्ध शरवती २८००/३२००, चावल शरवती रोला ३९००/३००, रहीम ४७००/४००, लालमती ३६००/३७०, चावल (सोणा)

३४००/३४५०, दाल अरहर सवा जे. ठेठेळ) १४००, चना दाल ६३००/४००, ६५०, चना देशी छना ६३०/६५००, पना वापा छना ६३५०/६५०, एगो प्योर बेसन २५२०, महर विदेशी ७४००/७५००, उइद २०२०, महत्व विकास गंधापा १०००/१०००, उन्हर साञ्चत (काला) १७००/१०००, उन्हर घोषा १९००/ १०००, मसूर छोडी १९००/१२००, महत्व १०००/१००, किरालाः जीरा १५४००/ १७००, सालामियं जुंदूर १५५००/ रहती हिजाम फसी (५० विक्स) ४९००/ स्त्वी बिजाम फशी (50 किला) 4990/ 5400, पविचा एमपी 8600/12300, छोटी इलायची (किला) 1250/1900, बढ़ी इलायची 640/710, कालीमिब (किलो) 450/560, सुपारी (किलो) 440/480, खाँफ मोटी 8400/11000, नंगरिल 21000/22000, विदांजी (किलो) 1100/1175, मरवाना 500/670

कानपुर गेर्हे लून 1950/1960, जी 1675/1700,

उत्तर प्रदेश चावल मसरी 2250/2300, चावल मोटा

वावलं मसूरा 2250/2300, वावलं मारा 2200/2225, देशी चना 5550/5600, मना छना 6350/6450, दाल चना 6350/ 6550, विदेशी मंदर ×, पिचकी 4800/ 4900, मंदर दाल 7200/8000,अरहर लेमन 6850/6950, दाल अरहर 8900/ 10200, स्पेशन 8200/8400,3इद एसक्यू 8100/8200, एफएक्यू 7100/7150, राजमा विज्ञा 11500/13600, मूंग 6200/6500, मसूर छोटी 7500/7600, छांदी ८५००/८६००, सरसों ७७००/७८००, धाँटी 850/1860, सरती '700/780, विस्त सेपेन 500/980, सेथा (थैस) 2425/2450, तेत सरसों जधी पानी वेंद्र वेंद्र (थैस) 2600/2850, सरसों जस्ती पानी वेंद्र (थैस) 2600/2850, सरसों जस अध्यादिन 2757/2300, यसस्यादिन देशी प्रकाशनार 2100, यस्त्र से सी प्रकाशनार 2100, यस्त्र से ती 6150, सीतायर 6150, असराति 8000/1800, प्रकाशनार 9200/5900, यदिया शोधान अध्यादिन 9200/5900, यदिया 10100/

१०७०, हल्दी ८०००/४२००, जीरा १५४००/ 17800, अजवायन 15500/19000, मेथी 6700/7000, मसाना 520/750, कालीमिर्च (किलो) 450/530, लालमिर्च कर्त्सीमय (किरा) 450/530, तारामिय (किरा) रोणा 165/215, (334) व. 145/155, युपारी (किरा) केरल 460/490, कर्बाटक विकरों 475/490, जोला 210000/2500 चंदीसी (प्रति किरा): मैच्या ऑयल 1096, बोल्ड किरस्त (12 तं.)1118, प्लैक 1080, श्रीप्रस्का 845, टरपीन लेख बोल्ड 1135

अध्याज ४४६, हरपान सर्व बार्ट्स ११३५ मुजपफरानार मुड (४० किस्तो): चाकू (कोर्ट्स) १३५०/१३६०, वीबी मिल डिली. (वितं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतीली ३६७५, सिहोरा ३६६०, देववंत्र ३६३०, थाना अवन ३६००, बुकाना ३६२०, शामली ३६५०, चीनी श्रांतर ३६५०/३७७५

रपपुर अनाज-दाला गेहूं 2010/2020, चावल

सेला 5000/5200, वासमती 1121 6100/6200, वना 6050/6100, वन कावली चना ८००० राजमा देशी विज्ञा १२५००/१३२०० राजना दशा वजा १,550 १,500, दाल 6600/6700, दाल उड़द १ 9500, घोचा 8700/ 9500, मूंग 6100/6400, मूंग दाल 8800/ 1 गुड़-चीनी: चीनी हाजिर ,500/ तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत 8000/8100, चीकर मोटा (34

600/610 द्वाला । द्वाला जीएसटी अंतिरेक्त (प्रति राइरावा (अपार) (प्रति चाहं रावा अरुरा (अपार) (र्वत क्रांत अरुरा, डीजीसी: यहरवाण के 825, कंटीन्यूअर 825, सरसे 23400, अवारण मेंह्र (850/200 (50 क्रिकी) (550, मैदा 1150, वी क्रिया) 910,